



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 कार्तिक 1930 (श0)  
(सं0 पटना 513) पटना, बृहस्पतिवार, 30 अक्टूबर 2008

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

29 अक्टूबर 2008

**संख्या— 7/सह.विधि-32/08 4314—** बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1935 यथा संशोधित —2008 की धारा 11“क” में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1996 के तहत निबंधित दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों को बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1935 के अंतर्गत निम्न प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन संपरिवर्तन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- ऐसी समिति के आस्तियों एवं दायित्वों सहित संपरिवर्तन का प्रस्ताव समिति की आम सभा में पारित हो।
- ऐसी समिति द्वारा बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 के तहत दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के लिए निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा पूर्व से अनुमोदित आदर्श उपविधि का अंगीकृत करने का प्रस्ताव आम सभा में पारित किया गया हो।
- ऐसी आम सभा की बैठक में निबंधक, सहयोग समितियाँ के प्रतिनिधि के रूप में कम्पेड के या दुग्ध उत्पादक संघ के पर्यवेक्षक पदाधिकारी प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहें हो।
- समिति द्वारा गत वर्ष तक की अंकेक्षित लेखा विवरणी समर्पित की गयी हो।
- उक्त समिति के ऐसे सभी सदस्य, जो निबंधक, द्वारा अनुमोदित आदर्श उपविधि के उपनियम 9 के अनुसार सदस्यता की अर्हता रखते हों, की सूची निबंधन के आवेदन के साथ संलग्न होनी चाहिए। ऐसे सभी सदस्य समिति के निबंधन के पश्चात् समिति के प्रारंभिक आम सभा में भाग ले सकेंगे।
- संबंधित समिति को पूर्व की व्यवस्था के तहत बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 के तहत दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के निबंधन हेतु न्यूनतम दुग्ध आपूर्ति की निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा।
- बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1935 की धारा 11 “क” के तहत संपरिवर्तित ऐसी समिति की प्रारंभिक आम सभा बिहार सहकारी समितियाँ नियमावली के नियम 20(2)के प्रावधानों के तहत निबंधन की तिथि से 90 दिनों के अन्दर आहूत की जाएगी तथा ऐसी प्रारंभिक आम सभा में उक्त नियमावली के प्रावधानों के तहत कार्यवाई की जाएगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
विजय कुमार शर्मा,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 513-571+00-डी0टी0पी0।